

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

FD से बेहतर रिटर्न दे रही ये सरकारी योजनाएं, डूबने का खतरा नहीं, ब्याज भी गारंटीड ।

Publisher

Published on 01 Jul 2025



RBI द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद बैंकों ने FD पर ब्याज घटाया, लेकिन कई सरकारी स्कीम्स अब भी दे रही है 7.5% से अधिक का गारंटीड रिटर्न ।

एफडी से बेहतर और सुरक्षित है ये सरकारी निवेश योजनाएं

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल में रेपो रेट घटाने के बाद बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में भी कटौती कर दी है । हालांकि, निवेशकों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की कई योजनाएं अब भी एफडी से कहीं बेहतर रिटर्न दे रही हैं — वो भी पूरी सुरक्षा और गारंटीड इंटरेस्ट के साथ ।

नीचे कुछ प्रमुख सरकारी बचत योजनाएं दी गई हैं, जो आज के समय में निवेश के लिए बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प मानी जा रही हैं:

1. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

ब्याज दर : 8.2% सालाना

उद्देश्य : बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए सुरक्षित फंड

योग्यता : 10 साल से कम उम्र की बालिका के नाम पर

निवेश सीमा : ₹250 से ₹1.5 लाख प्रति वर्ष

टैक्स छूट : धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक

सुरक्षित, टैक्स-फ्री और बेटियों के भविष्य के लिए सबसे लोकप्रिय योजना ।

2. किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra – KVP)

ब्याज दर : 7.5% सालाना

डबल होने की अवधि : 115 महीने (9 साल 7 महीने)

न्यूनतम निवेश : ₹1000

ऊपरी सीमा : कोई नहीं

सुरक्षा : सरकार द्वारा गारंटीड रिटर्न

जिन लोगों को दीर्घकालिक सुरक्षित निवेश चाहिए, उनके लिए सर्वोत्तम ।

3. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

ब्याज दर : 7.7% सालाना

मैच्योरिटी : 5 साल

न्यूनतम निवेश : ₹1000

टैक्स छूट : धारा 80C के अंतर्गत ₹1.5 लाख तक

कम अवधि के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का विकल्प ।

4. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

ब्याज दर : 8.2% सालाना

योग्यता : 60 वर्ष या उससे अधिक

न्यूनतम निवेश : ₹1000

अधिकतम निवेश : ₹30 लाख

मैच्योरिटी : 5 साल (विस्तार संभव)

टैक्स छूट : धारा 80C के अंतर्गत

रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुनिश्चित आय का सबसे अच्छा विकल्प ।

5. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

ब्याज दर : 7.4% सालाना (मंथली भुगतान)

मैच्योरिटी : 5 साल

न्यूनतम निवेश : ₹1000

अधिकतम निवेश :

सिंगल अकाउंट : ₹9 लाख

ज्वाइंट अकाउंट : ₹15 लाख

नियमित मासिक इनकम के लिए सबसे बेहतर सरकारी स्कीम ।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com